

प्रेषक,

हरिचन्द्र सेमवाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, धर्मस्व, तीर्थाटन प्रबन्धन एवं धार्मिक मेला अनुभाग देहरादून: दिनांक: 14 जून, 2024

विषय:- मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं- 93/2021 "बौराड़ी जनपद टिहरी

स्थित तोपवाल गढ़ का सौन्दर्यीकरण किया जायेगा" के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या-3999/सं0नि0उ0/दो-3(मा0मु0घो0-222)/2023-24, दिनांक 16.02.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयगत कार्य का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुए द्वितीय/अन्तिम किश्त अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के क्रम में विषयगत निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-1/62550/2022, दिनांक 15.9.2022 के द्वारा कुल स्वीकृत प्राक्कलन रू0 23.60 लाख (रू0 तेईस लाख साठ हजार मात्र) के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि रू0 11.80 लाख (रू0 ग्यारह लाख अस्सी हजार मात्र) के उपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में द्वितीय/अन्तिम किश्त के रूप में 11.80 लाख (रू0 ग्यारह लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुये व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उक्तानुसार प्रदान की गयी स्वीकृति के क्रम में संदर्भगत शासनादेश सं- 1/62550/2022, दिनांक 15.9.2022 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/201358/2024, दिनांक 22 मार्च, 2024 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5 - उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक- 4202- शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-04-कला और संस्कृति-106-संग्रहालय-04-महान विभूतियों की मूर्तियां/ शहीद स्मारक का निर्माण-53 -वृहद निर्माण कार्य मानक मद के पूंजीगत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

Signed by Hari Chandra

Semwal

भवदीय,

Date: 18-06-2024 14:19:39

(हरिचन्द्र सेमवाल)

सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी देहरादून।
- 3- वित्त अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून।
- 5- बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- 6- गार्ड फाईल।

Signed by Ramesh Singh आज़ा से,
Rawat

Date: 19-06-2024 11:59:08

(रमेश सिंह रावत)
अनु सचिव।